

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप-‘ए’
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
16.07.2016	1	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत लेखांकन	अवधारणा, आवश्यकता
18.07.2016	2	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत लेखांकन	कार्य व महत्व
19.07.2016	3	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत लेखांकन	प्रकृति एवं लागत लेखांकन की पद्धति
20.07.2016	1	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	आय कर-विषय प्रवेश	आयकर से आशय, उद्देश्य, गणना का आधार
21.07.2016				कक्षाध्यापन	
22.07.2016	2	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	आय कर-विषय प्रवेश	कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, करदाता, माना हुआ
23.07.2016	4	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत के तत्व एवं वर्गीकरण	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्री
25.07.2016	5	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत के तत्व एवं वर्गीकरण	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम
26.07.2016	6	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत के तत्व एवं वर्गीकरण	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की व्याख्या
27.07.2016	3	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	कृषि आय	कृषि आय से आशय, प्रकार
28.07.2016				कक्षाध्यापन	
29.07.2016	4	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	कृषि आय	अंशतः कृषि आय
30.07.2016				व्याख्या	
01.08.2016	7	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उपरिव्यय	उपरिव्ययों का अर्थ एवं व्याख्या
02.08.2016	8	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उपरिव्यय	उपरिव्ययों का बंटवारा एवं प्रक्रिया
03.08.2016	9	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	FIFO पद्धति
04.08.2016	5	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	निवासी के प्रकार, श्रेणी-‘अ’ तथा ‘ब’ की शर्तें एवं
					अतिरिक्त शर्तें
05.08.2016				कक्षाध्यापन	
08.08.2016	6	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
09.08.2016	10	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	LIFO पद्धति
10.08.2016	11	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	साधारण औसत मूल्य पद्धतियाँ
11.08.2016	12	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	साधारण औसत मूल्य पद्धतियाँ
12.08.2016	7	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	निवास स्थान के आधार पर कर भार
13.08.2016				कक्षाध्यापन	
16.08.2016	8	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	कर भार सम्बन्धी प्रश्न
17.08.2016	13	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धतियाँ	अर्थ एवं प्रारूप
19.08.2016	14	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धतियाँ	प्रकृति, लागत लेखें एवं लागत पत्र में अन्तर
20.08.2016	15	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	साधारण लागत पत्र
22.08.2015	9	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	वेतन से आशय

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप-‘ए’
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रमाण	अध्याय	शीर्षक
23.08.2016				मूल्यांकन	
24.08.2016	10	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	भत्ते के प्रकार
26.08.2016	16	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	साधारण लागत
27.08.2016	17	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	जब निर्मित माल का प्रारम्भिक व अन्तिम शेष दिया हों।
29.08.2016	18	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	चालू कार्य का दिया होना
30.08.2016	11	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	प्राविडेण्ड फण्ड, प्रकार एवं अन्तर
01.09.2016				कक्षाध्यापन	
02.09.2016	12	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	अनुलाभ- किरायें से मुक्त मकान की सुविधा
03.09.2016	19	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	दो अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन
05.09.2016	20	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	स्थिर और परिवर्तनशील व्यय
06.09.2016	21	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	नष्ट एवं दोषमुक्त उत्पादन
07.09.2016	13	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
08.09.2016				कक्षाध्यापन	
09.09.2016	14	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	मोटरकार की सुविधा का मूल्य
10.09.2016	22	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	अवधारणा अर्थ एवं मूल्य ज्ञात करना
14.09.2016	23	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	प्रति इकाई लागत एवं निविदा मूल्य
15.09.2016	24	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	सामग्री व श्रम या मूल लागत में परिवर्तन पर निविदा
16.09.2016	15	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	चिकित्सा सुविधा
20.09.2016				कक्षाध्यापन	
21.09.2016	16	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
22.09.2016	25	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	यदि निविदा से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष व्यय न दिया हो
23.09.2016	26	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	जब लागत के विभिन्न मदों में परिवर्तन की सम्भावना
					हो
24.09.2016	27	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	स्थिर, परिवर्तनशील एवं अर्द्धपरिवर्तनशील लागत
26.09.2016	17	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
27.09.2016				मूल्यांकन	
28.09.2016	18	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	ग्रेच्युटी
29.09.2016	28	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	अर्द्धपरिवर्तनशील लागत
03.10.2016	29	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	परिचालन लागत	परिचालन लागत का अर्थ
04.10.2016	30	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	परिचालन लागत	क्षेत्र एवं इकाई

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
05.10.2016	19	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	ग्रेच्युटी के उदाहरण
06.10.2016				कक्षाध्यापन	
07.10.2016	20	डॉ. राजेश शुक्ल	ए-द्वितीय	वेतन	ग्रेच्युटी के उदाहरण
08.10.2016	31	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	परिचालन लागत	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
14.10.2016	32	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	परिचय, सिद्धान्त एवं उद्देश्य
15.10.2016	33	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	सामान्य प्रक्रिया लागत लेखे
17.10.2016	21	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
18.10.2016				कक्षाध्यापन	
19.10.2016	22	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	वेतन	अर्जित अवकाश वेतन
20.10.2016	34	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	जब क्षय है तथा प्रत्येक प्रक्रिया में प्रारम्भिक तथा अन्तिम
21.10.2016	35	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	जब भार में कमी है तथा अवशेष की बिक्री हों
22.10.2016	36	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
24.10.2016	23	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	वेतन	सेवा से छटनी पर प्राप्त, प्राविडेण्ट फण्ड
25.10.2016				मूल्यांकन	
26.10.2016	24	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	वेतन	स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण, प्राविडेण्ट फण्ड
02.11.2015	37		प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	असाधारण क्षय एवं बचत का अर्थ
03.11.2016	38	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
04.11.2016	39	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उपोत्पाद एवं संयुक्त लागतों का विभाजन
05.11.2016	25	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	मकान सम्पति से आय	मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करना
08.11.2016				कक्षाध्यापन	
09.11.2016	26	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	मकान सम्पति से आय	ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में प्रावधान
10.11.2016	40	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
11.11.2016	41	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	अर्थ एवं व्याख्या
12.11.2016	42	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अन्तर प्रक्रिया लागत	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
15.11.2016	27	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	मकान सम्पति से आय	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
17.11.2016				कक्षाध्यापन	
18.11.2016	28	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	
19.11.2016	43	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अन्तर प्रक्रिया लागत	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
21.11.2015	44	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार
22.11.2015	29	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	ह्रास	आयकर अधिनियम में ह्रास से आशय स्वीकृति ह्रास की

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो

पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७

विषय : ग्रुप 'ए'

दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
23.11.2016	30	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	ह्रास	आयकर अधिनियम में ह्रास से आशय स्वीकृति ह्रास की
25.11.2016	31	" " "	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	क्रियात्मक प्रश्न
26.11.2016				मूल्यांकन	
28.11.2016	45	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	पूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
29.11.2016	46	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	पूर्व ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
30.11.2016	32	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	क्रियात्मक प्रश्न
01.12.2016	33	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	पूँजी लाभ	सम्पति प्राप्त करने की लागत कर मुक्त पूँजी लाभ
02.12.2016	34	" " "	द्वितीय	पूँजी लाभ	" " "
03.12.2016				कक्षाध्यापन	
06.12.2016	47	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.12.2016	48	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
08.12.2016	35	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	पूँजी लाभ	क्रियात्मक प्रश्न
09.12.2016	36	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	पूँजी लाभ	क्रियात्मक प्रश्न
12.12.2016	37	" " "	द्वितीय	अन्य साधनों से आय	आय जो कर योग्य हो
14.12.2016				कक्षाध्यापन	
15.12.2016	49	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	अंकेक्षण का उद्भव एवं विकास
16.12.2016	50	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं प्रकृति
17.12.2016	38	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	अन्य साधनों से आय	प्रमुख आयों का विवेचन एवं कटौतियाँ
19.12.2016	39	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	अन्य साधनों से आय	क्रियात्मक प्रश्न
20.12.2016	40	" " "	द्वितीय	धारा 80C से 80U	कतिपय आयों के सम्बन्ध में की जाने वाली कटौतियाँ
21.12.2016				कक्षाध्यापन	
22.12.2016	51	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	पुस्तपालन, लेखाकर्म, अंकेक्षण एवं अनुसंधान
24.12.2016	52	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	उद्देश्य, लाभ एवं सीमायें
26.12.2016	41	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	धारा 80C से 80U	भुगतान के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियाँ
27.12.2016	42	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	व्यक्तियों की कुल आय की गणना	एक व्यक्ति की कुल आय की गणना करने की विधि
28.12.2016	43	" " "	द्वितीय	कर दायित्व	विविध उदाहरण
29.12.2016				मूल्यांकन	
30.12.2016	53	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
31.12.2016	54	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	संदिग्धता के लिए संचय का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

[illegible]

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

[illegible]